

**CBSE Class 10 Social Science Question Paper 2014
Delhi Region SET - 3**

कोड नं. **32/1/3**
Code No.

रोल नं.

--	--	--	--	--	--	--	--

Roll No.

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 14 + मानचित्र हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 30 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जायेगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 14 printed pages + map.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 30 questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

**संकलित परीक्षा-II
SUMMATIVE ASSESSMENT-II
सामाजिक विज्ञान
SOCIAL SCIENCE**

निर्धारित समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 90

Time allowed : 3 hours]

[Maximum marks : 90

सामान्य निर्देश :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने दिए गए हैं।

[P.T.O.]

- (iii) प्रश्न संख्या 1 से 9 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) प्रश्न संख्या 10 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- (v) प्रश्न संख्या 22 से 29 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 120 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- (vi) प्रश्न संख्या 30 मानचित्र सम्बन्धी प्रश्न 5 अंक का है (2 अंक इतिहास तथा 3 अंक भूगोल)।
- (vii) भरे हुए मानचित्र को अपनी उत्तर-पुस्तिका के साथ संलग्न कीजिए।

General Instructions :

- (i) The question paper has 30 questions in all. All questions are compulsory.
- (ii) Marks for each question are indicated against the question.
- (iii) Questions from serial number 1 to 9 are Multiple Choice Questions. Each question carries 1 mark.
- (iv) Questions from serial number 10 to 21 are 3 marks questions. Answers of these questions should not exceed 80 words each.
- (v) Questions from serial number 22 to 29 are 5 marks questions. Answers of these questions should not exceed 120 words each.
- (vi) Question number 30 is a map question of 5 marks (2 marks from History and 3 marks from Geography).
- (vii) Attach the filled up map inside your answer-book.

1. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 'वर्ग विशेष के हित समूह' के संदर्भ में सही है ? 1
- (A) ऐसे संगठन जो विशेष हित के बजाय, सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - (B) ऐसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे समाज का नहीं, बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है।
 - (C) इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं, अपितु किन्हीं और की मदद करना होता है।
 - (D) ये दबाव समूह किसी वर्ग विशेष या समाज के किसी खास समूह के हितों को बढ़ावा नहीं देते।

Which one of the following statements is correct regarding 'sectional interest groups' ?

- (A) They promote collective rather than selective good.
- (B) Their principal concern is betterment and well being of their members, not society in general.
- (C) They aim to help groups other than their own members.
- (D) They do not seek to promote the interest of a particular section or group of society.

2. प्रसिद्ध पुस्तक 'हिन्द स्वराज' का निम्नलिखित में से लेखक कौन था ?

1

- (A) शौकत अली
- (B) सुभाष चंद्र बोस
- (C) जवाहर लाल नेहरू
- (D) महात्मा गांधी

Who, among the following was the author of the famous book 'Hind Swaraj' ?

- (A) Shaukat Ali
- (B) Subhas Chandra Bose
- (C) Jawahar Lal Nehru
- (D) Mahatma Gandhi

3. निम्नलिखित राज्यों में से किस में 'बालाघाट' ताँबे की खानें स्थित हैं ?

1

- (A) झारखण्ड
- (B) राजस्थान
- (C) बिहार
- (D) मध्यप्रदेश

In which one of the following States are the 'Balaghat' Copper mines located ?

- (A) Jharkhand
- (B) Rajasthan
- (C) Bihar
- (D) Madhya Pradesh

4. एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 'चुनाव आयोग' द्वारा निम्नलिखित सुविधाओं में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है ?

1

- (A) पार्टी का नाम
- (B) चुनाव के लिए धनराशि
- (C) चुनाव चिह्न
- (D) घोषणा-पत्र

Which one of the following facilities is offered by the 'Election Commission' to a recognised political party ?

- (A) Party name
- (B) Election funds
- (C) Election symbol
- (D) Manifesto

5. उत्तरदायी लोकतंत्र के परिणाम का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है ?

1

- (A) प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा
- (B) आर्थिक विकास की प्रोन्नति में खुलापन
- (C) आर्थिक असमानता को कम करने में खुलापन
- (D) लोगों द्वारा चुने गए शासकों के लिए खुलापन

Which one of the following is an example of outcomes of a democracy that produces an accountable Government ?

- (A) Open to public debates on major policies and legislation
- (B) Open in promoting economic development
- (C) Open in reducing economic inequalities
- (D) Open to rulers elected by the people

6. निम्नलिखित में से समर्थक ऋणाधार का सही अर्थ कौन सा है ?

1

- (A) यह बैंकों से उधार ली गई कुल धनराशि है
- (B) मित्रों से उधार ली गई धनराशि
- (C) यह कर्जदार की ऐसी सम्पत्ति है, जिसका उपयोग वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है
- (D) व्यापार में निवेश की गई धनराशि

Which one of the following is the appropriate meaning of collateral ?

- (A) It is the sum total of money borrowed from banks
- (B) The amount borrowed from friends
- (C) It is an asset of the borrower used as guarantee to a lender
- (D) The amount invested in a business

7. निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण पर बल देता है?

1

- (A) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (B) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
- (C) विश्व स्वास्थ्य संगठन
- (D) विश्व व्यापार संगठन

Which one of the following organisations lays stress on liberalisation of foreign trade and foreign investment ?

- (A) International Monetary Fund
- (B) International Labour Organisation
- (C) World Health Organisation
- (D) World Trade Organisation

8. 1845 में सिलेसिया में बुनकरों द्वारा ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था ?

1

- (A) ठेकेदारों ने उनके भुगतानों में भारी कमी कर दी
- (B) उन्होंने, उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति रोक दी
- (C) उन्होंने, उनको निर्मित कपड़े के आर्डर देना मना कर दिया
- (D) बुनकरों के हालात बड़े दयनीय थे

अथवा

वियतनाम में 'टोंकिन फ्री स्कूल' खोलने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था ?

- (A) 'पश्चिमी ढंग' की शिक्षा देने के लिए
- (B) 'आधुनिक शिक्षा' देने के लिए
- (C) 'विज्ञान की शिक्षा' देने के लिए
- (D) 'फ्रांसीसी भाषा' को लोकप्रिय बनाने के लिए

Which among the following was the main reason for the weavers to revolt against contractors in Silesia, in 1845 ?

- (A) Contractors reduced their payments drastically
- (B) They stopped the supply of raw materials to them
- (C) They refused to place orders for finished textiles
- (D) Condition of weavers was very pitiable

Or

Which among the following was the main reason to start the 'Tonkin Free School' in Vietnam ?

- (A) To provide 'Western Style Education'
- (B) To provide 'Modern Education'
- (C) To provide 'Science Education'
- (D) To popularise the 'French Language'

9. निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है ?

1

- (A) व्यापारी
- (B) सहकारी समितियाँ
- (C) साहूकार
- (D) मित्र और सम्बन्धी

Which one of the following is a formal source of credit ?

- (A) Traders
- (B) Cooperative societies
- (C) Money-lenders
- (D) Friends and relatives

10. राष्ट्रवादियों पर शिकजा कसने के लिए ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उठाए गए किन्हीं तीन दमनकारी उपायों का वर्णन कीजिए । 3×1=3

Describe any three suppressive measures taken by the British administration to clampdown on nationalists.

11. लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्षों के किस प्रकार आन्तरिक सम्बन्ध हैं ? बोलिविया के पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का उदाहरण देते हुए, स्पष्ट कीजिए । 3

How are popular struggles integral to the working democracy ? Explain with an example of Bolivia's struggle against privatisation of water.

12. नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने फ्रान्सीसी शासन के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की ? स्पष्ट कीजिए । 3

अथवा

1926 में वियतनाम में सैगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन क्यों उठ खड़ा हुआ ? स्पष्ट कीजिए ।

How did the local people in the areas conquered by the Napoleon react to French rule ? Explain.

Or

Why did a major protest erupt in 1926 in the Saigon Native Girls School in Vietnam ? Explain.

13. भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में हवाई यात्रा को क्यों प्राथमिकता दी जाती है ? स्पष्ट कीजिए । 3×1=3

Why is air travel preferred in the north-eastern states of India ? Explain.

14. विदेशी पर्यटकों के भारत में आने के कारण बताइए। 6×½=3

Give reasons for which foreign tourists visit India.

15. लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार जिम्मेदार सरकार के रूप में जानी जाती है ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 3

How is democratic government known as responsive government ?
Explain with an example.

16. राज्य के 'राजनीतिक दल' और 'राष्ट्रीय दल' की मान्यता के लिए, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लेख कीजिए। 1½+1½=3

State the conditions as laid down by the Election Commission to recognise a 'State Party' and 'National Party'.

17. 'पर्यावरणीय निम्नीकरण सर्वत्र दिखाई पड़ता है।' किन्हीं तीन मूल्यों की व्याख्या कीजिए जो पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम में सहायक हो सकते हैं। 3×1=3

'Environmental degradation has been seen everywhere'. Explain any three values that can help to prevent environment degradation.

18. उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र किस प्रकार स्थापित किया गया है ? स्पष्ट कीजिए। 1+1+1=3

How has a three tier quasi judicial machinery been setup for redressal of consumer disputes ? Explain.

19. लोग बैंकों के साथ किस प्रकार जुड़े होते हैं, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिये। 3

Explain with examples, how people are involved with the banks.

20. भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से प्रतिबन्ध काफी हद तक क्यों हटा दिए गए हैं ? स्पष्ट कीजिए। 3

Why have the barriers on foreign trade and foreign investment been removed to a large extent by the Indian Government ? Explain.

21. गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। 3

Explain the idea of Satyagraha according to Gandhiji.

22. वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 5

Explain the role of multinational corporations in the globalisation process.

23. भारत के 'स्वतंत्रता संघर्ष' में उद्योगपतियों की भूमिका को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 5

Explain with examples the role of industrialist in the freedom struggle of India.

24. “ ‘कृषि’ और ‘उद्योग’ एक-दूसरे के पूरक हैं ।” पाँच उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 5×1=5

“ ‘Agriculture’ and ‘industry’ are complimentary to each other”. Explain with five examples.

25. उपभोक्ताओं का बाजार में किस प्रकार शोषण होता है ? किन्हीं पाँच तथ्यों सहित स्पष्ट कीजिए। 5×1=5

How does exploitation of consumers take place in the market ? Explain with any five facts.

26. खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है ? खनिजों के संरक्षण के किन्हीं चार उपायों की व्याख्या कीजिए। 1+4=5

Why is conservation of minerals essential ? Explain any four measures to conserve minerals.

27. लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कोई पाँच राजनीतिक सुधार सुझाइए। 5×1=5

Suggest any five political reforms to strengthen democracy.

28. नेपाल के लोगों का संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए किस प्रकार प्रेरणा का स्रोत बना ? स्पष्ट कीजिए। 5

How has the struggle of the Nepali people become a source of inspiration to democrats all over the world ? Explain.

29. नेपोलियन द्वारा अपने नियंत्रित क्षेत्रों में शुरू किए गए किन्हीं पाँच सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। 5×1=5

अथवा

“फ्रान्सीसियों द्वारा हनोई में ब्यूबॉनिक प्लेग के फैलने को नियंत्रित करने के लिए उठाए गये उपायों ने गंभीर समस्या उत्पन्न की।” उक्त कथन की व्याख्या कीजिये। 5

Explain any five social and administrative reforms introduced by Napoleon in the regions under his control.

Or

“The measures taken by the French to control the spread of bubonic plague in Hanoi created a serious problem.” Explain the statement.

30. (30.1) दो लक्षण A और B भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा-मानचित्र में अंकित किए गए हैं। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की मदद से पहचानिए और उनके सही नाम, मानचित्र पर खींची गई रेखाओं पर लिखिए : 2×1=2

(A) वह स्थान जहाँ सितम्बर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था।

(B) वह स्थान जहाँ 1918 में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों का सत्याग्रह आयोजित किया गया था।

(30.2) भारत के उसी राजनीतिक रेखा-मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिह्नों से दर्शाइए और उनके नाम लिखिए : 3×1=3

(i) भिलाई-लोहा और इस्पात संयंत्र

(ii) कोयम्बटूर-सूती वस्त्र उद्योग केन्द्र

(iii) राजा सांसी - अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

(30.1) Two features A and B are marked in the political outline map of India. Identify these features with the help of the following information and write their correct names on the lines marked in the map :

(A) The place where the Indian National Congress Session was held in September 1920.

(B) The place where the cotton mill workers Satyagraha was organised in 1918.

(30.2) On the same political outline map of India, locate and label the following with appropriate symbols :

- (i) Bhilai - iron and steel plant
- (ii) Coimbatore - cotton textile centre
- (iii) Raja Sansi - international airport

नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 30 के स्थान पर हैं :

5×1=5

(30.1) उस स्थान का नाम बताइए, जहाँ दिसम्बर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ।

(30.2) सन् 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों ने किस स्थान पर सत्याग्रह प्रारम्भ किया था ?

(30.3) भिलाई लोहा और इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है ?

(30.4) उस राज्य का नाम बताइए, जिसमें कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग स्थित है ।

(30.5) राजा साँसी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में स्थित है ?

Note : The following questions are **for the BLIND CANDIDATES** only in lieu of Q. No. 30. :

- (30.1) Name the place where the Indian National Congress Session was held in December 1920.
- (30.2) At which place did the cotton mill workers start the Satyagraha in 1918 ?
- (30.3) In which state is Bhilai iron and steel plant located ?
- (30.4) Name the state where Coimbatore textile centre is located.
- (30.5) In which city Raja Sansi international air port is located ?